

MSIL: COS: NSE&BSE: 2021

21<sup>st</sup> June, 2021

Vice President

National Stock Exchange of India Limited

"Exchange Plaza", Bandra- Kurla Complex

Bandra (E)

Mumbai - 400 051

General Manager

Department of Corporate Services

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street, Mumbai- 400 001

**Sub: Copy of notice published in newspaper**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith a copy of notice published in newspaper regarding transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Suspense Account.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,

For **Maruti Suzuki India Limited**



Sanjeev Grover

Vice President &

Company Secretary

Encl.: As above

**MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED**

**Head Office:**

Maruti Suzuki India Limited,

1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj,

New Delhi - 110070, India.

Tel: 011- 46781000, Fax: 011-46150275/46150276

E-mail id: [contact@maruti.co.in](mailto:contact@maruti.co.in), [www.marutisuzuki.com](http://www.marutisuzuki.com)

**Gurgaon Plant:**

Maruti Suzuki India Limited,

Old Palam Gurgaon Road,

Gurgaon - 122015, Haryana, India.

Tel: 0124-2346721, Fax: 0124-2341304

**Manesar Plant:**

Maruti Suzuki India Limited,

Plot No.1, Phase - 3A, IMT Manesar,

Gurgaon - 122051, Haryana, India.

Tel: 0124-4884000, Fax: 0124-4884199

## FIDC seeks liquidity support for NBFCs for on-lending to MSMEs

PRESS TRUST OF INDIA  
Mumbai, June 20

Finance Industry Development Council (FIDC) has written to the government requesting setting up of a refinancing window for non-banking financial companies (NBFCs), especially smaller players, for on-lending to the MSME sector.

In a letter addressed to Union minister for micro, small and medium enterprises (MSMEs) Nitin Gadkari, FIDC said banks are one of the major sources of funding for NBFCs, with the small and medium sized non-bank players being totally dependent on banks.

With the changing economic environment and the associated developments, NBFCs, especially, small and medium sized ones, are facing

liquidity crunch.

Moreover, banks are constrained by the exposure limits prescribed for the NBFC sector, the letter said, adding that it is therefore important that a permanent refinancing mechanism is developed for NBFCs.

"We suggest that SIDBI (Small Industries Development Bank of India) may be allocated funds exclusively for refinancing NBFCs for on-lending to MSMEs, with a carve out for small NBFCs. This refinancing may be provided for a period of at least three years," FIDC, an industry body of NBFCs, said.

It said retail and wholesale traders who contribute significantly to the country's economy and are integral part of the business community have been excluded from the definition of MSMEs.

## Public parks, gardens to open in Delhi from today

THE DELHI GOVERNMENT has allowed the reopening of bars, public parks and gardens from Monday under a phased easing of restrictions imposed due to the second Covid wave.

The Delhi Disaster Management Authority (DDMA) in an order on Sunday stated that bars will be allowed to reopen with 50% seating capacity, from 12 pm to 10 pm, from next week.

The owners of restaurants and bars will be responsible for strict adherence to Covid safety measures and all official guidelines and norms, it said. Public parks, gardens and golf clubs will be reopened and outdoor yoga activities will also be allowed, the DDMA stated in its order. Prohibited activities and services, including educational institutions, cinemas, gyms, spas, all kinds of political, social, cultural, religious gatherings among others will remain closed till further orders or 5 am on June 28. —PTI

## Sebi reconstitutes takeover panel

MARKETS REGULATOR SEBI has reconstituted its takeover panel, which looks into the applications seeking exemption from the mandatory open offer that an acquirer needs to make to minority shareholders.

The regulator has appointed N Venkatram, MD and CEO of Deloitte India, as the new member of the Takeover Panel, latest update with Sebi

showed.

The panel, chaired by NK Sodhi, the former chief justice of the high courts of Karnataka and Kerala, makes its recommendations to Sebi on such applications after which the regulator gives an opportunity to concerned parties before passing an order.

Sodhi was also the former presiding officer of the Securities Appellate Tribunal. —PTI

## MAFATLAL INDUSTRIES LIMITED

CIN: L17110GJ1913PLC000035

Regd. Office: 301-302, Heritage Horizon, 3<sup>rd</sup> Floor, Off. C.G. Road, Navrangpura, Ahmedabad-380 009. Tele. No. 079-26444404-06 Fax No. 079-26444403  
E-mail: ahmedabad@mafatal.com Web Site: www.mafatal.com

### NOTICE

Information regarding 107<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Members of the Company to be held through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means (VC/OAVM)

Notice is hereby given that the 107<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") is scheduled to be held on Friday, July 30, 2021 at 12:30 p.m. through video conferencing (VC)/other audio visual means ("OAVM") without the presence of the members at a common venue in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated 8<sup>th</sup> April, 2020 read with circulars dated 13<sup>th</sup> April, 2020, 5<sup>th</sup> May, 2020 and 13<sup>th</sup> January, 2021 and SEBI circular dated 12<sup>th</sup> May, 2020 and 15<sup>th</sup> January, 2021 to transact the business as set out in the Notice convening the 107<sup>th</sup> AGM.

In compliance with the said MCA and SEBI Circulars, the electronic copies of the Notice of 107<sup>th</sup> AGM and the Annual Report of the Company for the year 2020-21 will be sent to all the Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants (DP).

Members who have not registered their email addresses and mobile numbers are requested to furnish the same to the Company's Registrar & Share Transfer Agents KFin Technologies Private Limited (hereinafter referred to as 'KFin') (formerly known as Kavya Fintech Pvt. Ltd.) at einward.ris@kfinetech.com to get their email addresses and mobile numbers registered.

The Annual Report for FY 2020-21 along with Notice of the AGM shall be made available and can be downloaded from the Company's website www.mafatal.com under "Financials & Disclosures" section and also at the website of KFin Technologies Private Limited ("KFinTech"), the Registrar & Share Transfer Agents (STA) of the Company at www.kfintech.com and the same shall be available on the website of Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com.

The Company is providing remote e-voting facility ("Remote voting") to all its members to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of the 107<sup>th</sup> AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM. Detailed procedure for joining the AGM and remote e-voting and the e-voting during AGM will be provided in the Notice of 107<sup>th</sup> AGM and also will be posted on the Company's website at: www.mafatal.com under "Financials & Disclosures" section.

The Board of Directors of the Company has not recommended any dividend for 2020-21. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.



For Mafatal Industries Limited,

Place: Ahmedabad  
Dated: 19<sup>th</sup> June, 2021

Ashish A. Karanji  
Company Secretary

## FORM A

### PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

### FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF KSB SECURITIES LIMITED

#### RELEVANT PARTICULARS

Sr. No.	Name of Corporate Debtor	KSB Securities Limited
1.	Date of incorporation of Corporate Debtor	22/01/1993
2.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	RoC-Delhi
3.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor	U74899HR1993PLC45764
4.	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	Plot No. 1, Naher (Canal) Colony, Bih Water Filling Plant, Dankot, Gurgaon, Haryana - 122001
5.	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	18/06/2021
6.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	15/12/2021
7.	Name and Registration number of the insolvency professional acting as Interim Resolution Professional	Name: Pawan Kumar Agrawal Reg. No.: IBB/IPA-001/IP-P00852/2017-18/11435
8.	Address & email of the interim resolution professional, as registered with the board	Pawan Kumar Agrawal Address: L-2/37A, Ground Floor, Ekta Square, DDA, Kalkaji, New Delhi-110019. Email: ip@ppglgal.com
9.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Interim Resolution Professional	Pawan Kumar Agrawal Address: 40/55, First Floor, Chittaranjan Park, New Delhi - 110019. Email: ksbl.cripi@gmail.com
10.	Last date for submission of claims	02/07/2021
11.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional	NA
12.	Names of insolvency professionals identified to act as authorised representative of creditors in a class (three names for each class)	NA
13.	(a) Relevant forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	a) Web link: https://bbi.gov.in/home/downloads b) NA

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of KSB Securities Limited on 18/06/2021.

The creditors of KSB Securities Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 02/07/2021 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorised representative of that class in its class.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 20.06.2021  
Place: New Delhi

Pawan Kumar Agrawal  
Interim Resolution Professional of KSB Securities Limited  
Reg. No.: IBB/IPA-001/IP-P00852/2017-18/11435

## MARUTI SUZUKI

### MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

CIN: L34103DL1981PLC011375

Regd. Off.: Plot no. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi-110070, India  
Ph.: +91 (11)46781000; Fax: +91 (11)46150275/76  
Web: www.marutisuzuki.com; Email Id: investor@maruti.co.in

### NOTICE

(For the attention of Equity Shareholders of the Company)  
Sub: Transfer of Equity Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Suspend Account

This Notice is published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") as amended from time to time by the Ministry of Corporate Affairs.

The Rules contain provisions for transfer of such shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more in the name of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Suspend Account. The Company has communicated individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Suspend Account under the Rules for taking appropriate action.

The Company has uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF Suspend Account on its website at [www.marutisuzuki.com](http://www.marutisuzuki.com). Shareholders are requested to refer to the website <https://www.marutisuzuki.com/corporate/investors/events> to verify the details of unpaid/unclaimed dividend and the shares liable to be transferred to IEPF Suspend Account.

Shareholders may note that both the unpaid/unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF Authority / Suspend Account including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from IEPF Authority after following the procedure prescribed by the Rules.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 30th September, 2021, the Company shall transfer the shares to the IEPF Suspend Account as per procedure stipulated in the Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact to the Company's Registrar and Transfer Agent at KFin Technologies Pvt Ltd, Mr. Rajkumar Kale, Selenium Building, Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500032. Tel.: 040-6716 2222; Toll Free No.: 1-800-309-4001; Email: einward.ris@kfinetech.com; Website: www.kfinetech.com

For Maruti Suzuki India Limited

Place: New Delhi  
Date: June 21, 2021

Sanjeev Grover  
Vice President and  
Company Secretary

**JAMMU & KASHMIR BANK LIMITED**  
(CIN: L65110JK1938SGC000048)  
Registered Office:  
M. A. Road, Srinagar-190 001  
Tel: 0194-2483775, Fax: 0194-2481928  
Website: www.jkbank.com  
Email: board.sectt@jkbmail.com

## NOTICE

Members of the Bank are hereby informed that pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended read with the General Circular Nos. 14/2020 dated 8<sup>th</sup> April, 2020, 17/2020 dated 13<sup>th</sup> April, 2020, and 39/2020 dated 31<sup>st</sup> December, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable provisions of the Act for the time being in force and as amended from time to time, the Bank has on June 19, 2021 completed the dispatch of Postal Ballot Notice to the Members of the Bank whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on Friday, June 11, 2021 through electronic mail to the Members whose e-mail ids are registered in the records of Depository Participants (in case of electronic shareholding) / the Bank's Registrar and Transfer Agent (in case of physical shareholding). The Bank seeks approval for the following Resolutions through Postal Ballot by voting through electronic means (e-voting) only:

Sr. No.	Description of Resolutions
1.	Authority to the Board of Directors of the Bank to offer, issue and allot equity shares on a preferential basis to the Government of Jammu and Kashmir, promoter and majority shareholder of the Bank
2.	Issue of shares to Employees and whole time Directors of the Bank

The Postal Ballot Notice has been communicated to the Stock Exchanges (NSE & BSE) and is also placed on the website of the Bank [www.jkbank.com](http://www.jkbank.com). The Bank has appointed Mr. D S M Ram Practising Company Secretary, to act as the Scrutinizer, for conducting the Postal Ballot process, in a fair and transparent manner. In view of the aforementioned MCA circulars, the Bank seeks approval for the resolutions as contained in the Postal Ballot Notice by voting through electronic means (e-voting) only. The Bank is providing the e-voting facility to its Members and has engaged the services of M/S KFin Technologies Private Limited for this purpose. Members are requested to note that e-voting commences at 0900 hours IST on Tuesday June 22, 2021 and ends at 1700 hours IST on Wednesday July 21, 2021. The detailed instructions regarding e-voting have been provided in the Postal Ballot Notice. In case of any queries, you may reach to:

- NSDL helpdesk by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or call Toll Free No. 1800 1020 990 and 1800 2244 30 (for shareholders with NSDL as depository).
- CDSL helpdesk by sending a request at [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or contact at 022-2305 8738 or 022-2305 8542 - 43 (for shareholders with CDSL as depository), or
- Refer Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual available at the 'download' section of <https://evoting.kfintech.com> or call M/S KFin Technologies Private Limited on 1800 309 4001 (toll free).

Members requiring any clarification on e-voting may also contact Mr. Mohammad Shafi Mir, Company Secretary at [sharedeptt\\_gc@jkbmail.com](mailto:sharedeptt_gc@jkbmail.com) or at Telephone No. +91 194248 3775. The Members whose shares are in physical form and whose email ids are not registered with the Registrar and Share Transfer Agent may update the same temporarily on <https://ris.kfintech.com/client-services/postballot/registration.aspx> for the purpose of e-voting on the resolutions as stated above. The result of Postal Ballot shall be declared on or before July 23, 2021 and will be available at the Registered Office / Corporate Office of the Bank, communicated to the Stock Exchanges and would also be uploaded on the Bank's website at [www.jkbank.com](http://www.jkbank.com) and on the website of e-voting agency - M/S KFin Technologies Pvt. Ltd. at [www.kfintech.com](http://www.kfintech.com).

By order of the Board

Jammu & Kashmir Bank Limited

Sd/-

(Mohammad Shafi Mir)

Company Secretary

Place: Srinagar  
Date: June 20, 2021

## AMTEK AUTO LIMITED

CIN: L27230HR1988PLC030333

Regd. Office: Plot No. 16, Industrial Area, Rozka Meo, P.O. Sohna, Gurgaon Gurgaon HR-122003 IN  
Corporate Office: 3 LSC Pamphos Enclave, Greater Kailash-I, New Delhi-110048  
Tel: +91-11-42344444 | Fax: +91-11-42344400 | E-mail: info@amtekauto.com | Web: www.amtek.com

### EXTRACT OF THE STATEMENT OF UN-AUDITED (STANDALONE) FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF-YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2020

Sl. No.	Particulars	Standalone					
		Quarter Ended 30.09.2020 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2020 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2020 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited)	
1.	Total Income from operations (inclusive of other income)	12,387	3,653	19,424	16,040	41,007	74,836
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(10,751)	(14,577)	(9,224)	(25,328)	(17,066)	(107,909)
3.	Net Profit / Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(10,751)	(14,577)	(9,224)	(25,328)	(17,066)	(108,339)
4.	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(10,751)	(14,577)	(9,224)	(25,328)	(17,066)	(108,339)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) & other Comprehensive Income (after tax))	(10,448)	(14,534)	(9,183)	(24,982)	(16,999)	(108,169)
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 2/- each)	4,965	4,965	4,965	4,965	4,965	4,965
7.	Other equity (excluding Revaluation Reserve)	—	—	—	—	—	(1,055,907)
8.	Earnings per Share (F.V. of Rs 2/- each)						
	a Basic (in Rs.)	(4.33)	(5.87)	(3.72)	(10.20)	(6.87)	(43.64)
	b Diluted (in Rs.)	(4.33)	(5.87)	(3.72)	(10.20)	(6.87)	(43.64)

Note:  
1. The Corporate Insolvency Resolution Process ("CIRP") was initiated, on a petition filed by erstwhile Corporation Bank, against the Company under the provision of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 ("Code/IBC"). The said petition was admitted vide Order dated July 24, 2017 passed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench ("NCLT"). The implementation of the DVI's Resolution Plan is under way and will be an outcome of the actions by the Successful Resolution Applicant along with support of the IBC. Accordingly, the Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Half year ended September 30, 2020 have been continued to be prepared on a going concern basis.  
2. The above Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Half year ended September 30, 2020 have been prepared in terms of Regulation 33(2) of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulation 2015, as amended. Since the powers of the Board of Directors stand suspended after commencement of CIRP, the above audited results for the Quarter and Half year ended September 30, 2020 have been endorsed by Chief Financial Officer, confirming that financial results do not contain any material misstatements and thereafter provided to the Insolvency Professional for his signing on 19th June, 2021 and for further filing with stock exchanges.  
3. During the financial year 2017-18, the Company had availed interim finance of Rs. 8,000 Lakhs (out of the sanction of Rs. 10,000 Lakhs) from ECL Finance Limited at the interest rate of 15.90% p.a. ECL Finance Limited had assigned this loan to Edelevess Asset Reconstruction Limited on September 15, 2018 together with all rights, title and interest. The entire loan had become overdue since November 29, 2018. Subsequent to the close of Quarter and Half year ended September 30, 2020, the Company has repaid the entire dues on 21<sup>st</sup> October, 2020.  
4. Exceptional items and impairment losses (i) During the Financial year 2017-18, under the CIRP, the Resolution Professional and the lenders obtained valuation of its entire assets from approved valuers. Based on such valuations obtained, the Company assessed the need to carry out an impairment / diminution in the carrying value of all of its assets (i.e. Property, Plant and Equipment, Capital work-in-progress, Investments, Inventories, Trade Receivables, and Other Financial Assets). The impact of impairment / diminution was recorded as exceptional items in the financial statements of 2017-18. The Company had recorded further impairment / diminution in its books of account during the financial year 2018-19, owing to there being no operations in few of its plants due to lack of orders from OEMs. The provision for impairment has been worked out on the basis of valuation referred to in valuation reports and the Resolution Plan as approved by NCLT vide Order dated July 25, 2018, without any reference to determination of 'value-in-use'. The Company is in the process of determining the 'value-in-use'. (ii) During the quarter ended June 30, 2020, the Company has decided to fully impair the Advance to Supplier - Metaltax Forgings Limited, the outstanding of which aggregates to Rs. 4996 Lakhs, in light of non-visibility of finalisation of resolution plan in the CIRP of Castex Technologies Limited.  
5. Creditors' Claims (i) As a part of CIRP, creditors of the Company were called to submit their claims to the Resolution Professional. The summary position of the same is reproduced in the result uploaded in the website of the company and exchange. \*\* In light of the approval of resolution plan by CoC & its further approval by NCLT vide Order dated July 25, 2018, no provision is considered necessary for the differential claims. The party-wise reconciliation of liability appearing in books of account vis-à-vis their claims admitted is pending. (ii) The Company has not provided liability towards interest, penal interest charges and any foreign exchange fluctuation on claims by financial creditors for the period post July 24, 2017, since as part of CIRP, the claims for interest, penal interest charges and foreign exchange fluctuation can impact their claims in Form C only till the date of commencement of CIRP of the Corporate Debtor i.e. July 24, 2017. Accordingly, no provision has been considered for the same.  
6. The Company is engaged in the manufacturing and sale of Auto Components for the transportation industry and considering the Company's nature of business and operations and the information reviewed by the Chief Operating Decision Maker (CODM) to allocate resources and assess performance, the Company has only one reportable business segment as per the requirements of Ind AS 108 "Operating Segment" namely Auto components for transportation industry.  
7. Asset-held-for-sale: Company's investment in its joint venture company "SMI Amtek Crankshaft Private Limited" had been classified as "Asset-held-for-sale" since March 31, 2018 by virtue of Business Transfer Agreement dated 16.04.2018. The transfer could not be completed till the date of approval of these results for the reasons beyond the control of the management and primarily owing to failure of LHG in implementation of the Resolution Plan. However, as per the requirements of DVI's Resolution Plan, Asset Monitoring Committee (AMC) shall be formed and would authorise the sale of Pass-through Assets including SMI Assets. Accordingly, the assets remain held-for-sale and this sale is expected to be completed within next 12 months, so after the AMC is formed.  
8. (i) The management came across certain additional bank accounts with ICICI Bank, in the name of Company, which have been reported to be pertaining to public deposits received by the Company prior to FY 2008-09 and thus the balance could be related to repayment of deposits or related interest payment or expense payment etc. and there were no movement [except few insignificant transactions] in these accounts since past many years. Balance existing in these accounts as on March 31, 2020 aggregating to Rs. 18.78 Lakhs, which came to the notice of management on 08<sup>th</sup> October 2020, had been recorded in the books of account as on March 31, 2020 with a corresponding credit to "Other Financial Liabilities" in the interim while the management is yet in the process of reconciling the corresponding depositors' details and will pursue with MCA for the applicable compliances, including depositing the captioned amount with Investor Protection Fund, along with consequential penalty etc. (ii) Subsequent thereto, the management has also taken up a detailed exercise with all its existing banks, to ensure that there are no further unrecorded bank accounts in the name of the Company. Resultantly, 4 additional bank accounts aggregating to Rs. 23.38 Lakhs were identified, which had been recorded in the books of account as on September 30, 2020 with a corresponding credit to "Operational Creditors / Other Income". (iii) The management has also taken-up with ICICI Bank, for the close of approved additional bank accounts with ICICI Bank specified in (i) above, & the balance in those accounts were transferred to Company's operational bank accounts).  
9. (i) The Vice Chairman and Managing Director of the Company was reappointed by the shareholders in the extra ordinary meeting held on March 25, 2017 for a period of two years effective from August 14, 2016. The Company based upon the legal opinion is of the view that for the purpose of the calculation of the minimum remuneration effective capital of the Company prescribed as per provisions of Schedule V of the Companies Act, 2013 would be based on the latest available audited financial statements at the date of meeting which was March 31, 2016 and same would be applicable for calculation of the minimum remuneration as per provisions of Schedule V of the Companies Act, 2013 for the year ended March 31, 2016. The Company has accordingly calculated excess remuneration of Vice Chairman and Managing Director of the Company during the period from April 1, 2017 to June 23, 2017 as Rs. 3.31 Lakhs. The Vice Chairman and Managing Director of the Company has resigned during the (previous) financial year 2017-18 and therefore the excess remuneration paid/due to the statement of profit and loss account for the above-mentioned period could not be recovered from him during the (previous) financial year 2017-18. (ii) Subsequent to the aforesaid, in the preceding financial year (FY 2019-20), the Company has adjusted the above-stated excess remuneration from the Vice Chairman and Managing Director against reimbursement of expenses. (iii) For the aforesaid time being default in the provisions relating to managerial remuneration, the Company will seek approval from the Ministry of Corporate Affairs for condonation, with consequential penalty and compounding fees, if any, as per provisions of Companies Act, 2013. However in the absence of exact quantum of penalty and compounding fees, no adjustments for excess remuneration paid and provision for penalty and compounding fees have been made in the financials of previous years) as well as these financials which shall be accounted in the year when the same is determined by the Ministry of Corporate Affairs.  
10. The spread of COVID-19 pandemic has affected the business operations post the Government of India declared a national lockdown on 25 March 2020. The Company has taken various measures in consonance with Central and State Government advisories to contain the pandemic, which included closing of manufacturing facilities. Post lifting the aforesaid lock down, the Company has carried out a comprehensive assessment of possible impact (that may result from this pandemic) on its business operations, financial assets, contractual obligations and its overall liquidity position, based on the internal and external sources of information and application of reasonable estimates. In that context and based on the current estimates, the Company does not foresee any significant incremental risk to the recoverability of its assets, other than those assets which have been fully impaired / provided for. Pursuant to the related guidelines, the Company has now resumed its operations at all its plants. Since the situation is continuously evolving, the impact may be different from the estimates made as at the date of approval of these financial results. By the end of ensuing financial year, the Company has been able to substantially overcome the financial turbulence caused and will continue to monitor any financial implications arising due to the impact of this pandemic on financial and operational performance of the Company and take necessary measures to address the situation.  
11. Previous period figures have been regrouped/reclassified, wherever considered necessary to conform to the current period presentation.

For Amtek Auto Limited

Date: 19.06.2021  
Place: New Delhi.

Sd/-  
(Dinkar T. Venkatasubramanian)  
Insolvency Professional

Sd/-  
(Vinod Upal)  
Chief Financial Officer

**Persistent Systems Limited**  
CIN: L72300PN1990PLC056696  
Regd. Office: 'Bhageerath', 402 Senapati Bapat Road, Pune 411 016  
Ph. No.: +91 (20) 6703 0000; Fax: +91 (20) 6703 0008  
E-mail: [investors@persistent.com](mailto:investors@persistent.com); Website: [www.persistent.com](http://www.persistent.com)

### NOTICE OF THE 31<sup>st</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

NOTICE is hereby given that the 31<sup>st</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, July 21, 2021 at 1600 Hrs. (India Time) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM.

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General Circular No. 14/2020,

# उत्तराखंड में बारिश से नदियां उफान पर

आने वाले दिनों में प्रदेश के अनेक स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी

देहरादून, 20 जून (भाषा)।

उत्तराखंड में पिछले तीन दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण गंगा-यमुना सहित सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर आ गई हैं और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इन उफनाई नदियों ने कई जगह सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त कर दिए हैं जिससे उन पर आवाजाही बंद हो गई है। इसके अलावा, नैनीताल, अल्मोड़ा और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों

में पहाड़ों से भूस्खलन होने से दर्जन भर मकानों को नुकसान भी पहुंचा है। राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, गंगा और सहायक नदियां जैसे अलकनंदा, पिंडर, मंदाकिनी, नंदाकिनी, सरयू और काली, खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं और उनके किनारे बसे गांवों के निवासियों से सतर्कता बरतने तथा सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है।

ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर सुबह खतरे के निशान तक पहुंच गया। देहरादून के समीप डाकपत्थर में यमुना नदी भी खतरे के निशान के करीब बह रही थी। पिछले 24 घंटों में हरिद्वार में 89 मिमी, कर्णप्रयाग में 66 मिमी, गैरसैण में 56 मिमी, अल्मोड़ा और रानीखेत में 50-50 मिमी, टिहरी में 28 मिमी तथा देवप्रयाग में 47.50 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश के अनेक स्थानों पर भारी वर्षा की

चेतावनी दी है।

ऋषिकेश-केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कालीमठ गेट के पास और ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ के पास भूस्खलन से अवरूद्ध है जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रदेश भर में जगह-जगह दर्जनों मांग पहाड़ों से मलबा आने से बंद हो गए हैं जिनके कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।

# वलसाड में गोरक्षक की हत्या के मामले में 10 लोग गिरफ्तार

वलसाड, 20 जून (भाषा)।

गुजरात के वलसाड जिले में मवेशियों को अवैध तरीके से ले जा रहे लोगों द्वारा एक गोरक्षक की कथित तौर पर टेम्पो से कुचलकर हत्या कर दिए जाने के मामले में 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी एक ऐसे अंतर-राज्यीय गिरोह से जुड़े थे, जो वलसाड के गांवों से मवेशियों को खरीदता है और फिर उन्हें अवैध तरीके से पड़ोसी महाराष्ट्र खासतौर से भिवंडी, अहमदनगर और नाशिक जैसे स्थानों पर

ले जाता है। वलसाड पुलिस ने शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि यह घटना शुक्रवार सुबह धरमपुर-वलसाड मार्ग पर उस समय हुई जब स्थानीय विहिप स्वयंसेवक हार्दिक कंसारा (29) ने मवेशियों को ले जा रहे एक वाहन को रोकने की कोशिश की पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक टेम्पो के वलसाड में धरमपुर तालुक के बरसोल गांव से महाराष्ट्र के भिवंडी की ओर जाने की सूचना मिलने के बाद कंसार ने अपने दो साथियों के साथ और पुलिस के एक दल ने वाहन का पीछा किया। कंसार तथा उसके साथियों ने सड़क अवरूद्ध कर वाहन को रोकने की कोशिश की।

# कश्मीर घाटी के सभी 15 रेलवे स्टेशन ‘वाई-फाई नेटवर्क’ से जुड़े

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी

नई दिल्ली, 20 जून (भाषा)।

कश्मीर घाटी में श्रीनगर समेत सभी 15 रेलवे स्टेशनों को भारतीय रेल के वाई-फाई नेटवर्क से जोड़ा गया है। मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है।

बयान में कहा गया है कि रेलवापर वाई-फाई बारामूला, पट्टन, मझोम, बडगाम, श्रीनगर, पंपोर, काकापोरा, अवंतीपुरा, पंजगाम, बिजबेहरा, अनंतनाग, सदुरा, काजीगुंड और बनिहाल स्टेशनों पर उपबल्य है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘आज, विश्व वाई-फाई दिवस पर मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कश्मीर घाटी में श्रीनगर और 14 अन्य स्टेशन दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क में से एक का हिस्सा हो गए हैं। इससे देश में

6,000 से ज्यादा स्टेशन जुड़े हुए हैं।’ मंत्री ने कहा, ‘यह डिजिटल इंडिया के लिए एक अहम कदम है और यह उन लोगों को जोड़ने में लंबी दूरी तय करेगा, जो अब तक इससे जुड़े नहीं थे। मैं भारतीय रेल की टीम और रेलटेल को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ, जिसने इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के लिए बिना थके लगातार काम किया।’ इस कदम के लिए भारतीय रेल की तारीफ करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, ‘मौजूदा समय में वाई-फाई लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने और डिजिटल खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।’ प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने कहा कि महामारी की वजह से ऑनलाइन की दुनिया से जुड़ा होना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।

# कोरोना से बढ़ा आर्थिक संकट तो बेटे ने मां को भेजा वृद्धाश्रम

मां ने कहा, अपने बेटे के खुश रहने की दुआ करती हूं

औरंगाबाद, 20 जून (भाषा)।

महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक बुजुर्ग महिला को वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसके बेटे ने कोरोना का फैलने से रोकने के लिए लागू पूर्णबंदी के कारण वित्तीय दिक्कतों के चलते उसकी देखभाल करने से इनकार कर दिया। करीब 60 वर्ष की आयु की किरण परदीकर ने कई साल पहले अपने पति को खो दिया था और उन्होंने सिलाई करके अपने बेटे को पाला।

पुंडलिकनगर पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक घनश्याम सोनवणे ने बताया कि महिला के बेटे ने बाद में आजीविका कमाने के लिए एक अदालत के पास किताबों का स्टॉल लगा लिया था लेकिन पूर्णबंदी के कारण पिछले साल उसका काम बंद हो गया। बहू से मतभेद होने के कारण परदीकर ने कुछ समय से अलग रहना शुरू कर दिया था। उसके बेटे ने उसके लिए किराए पर एक कमरा लिया था तथा उसके लिए खाने के टिफिन की व्यवस्था की थी।

सोनवणे ने कहा, ‘महिला हाल में किसी वृद्धाश्रम में भेजने के लिए मदद मांगने के वास्ते हमारे पास आई क्योंकि उसे अपने बेटे की वित्तीय स्थिति खराब होने के बारे में पता

चल गया था। हम उनके लिए नए कपड़े लेकर आए और यहां ‘मातोश्री वृद्धाश्रम’ को उन्हें रखने के लिए एक पत्र दिया।’ वृद्धाश्रम के प्रबंधक सागर पगोरे से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि परदीकर पुलिस के पत्र के साथ 11 जून को उनके पास आई। उन्होंने कहा, ‘वह हमारे साथ हैं। उनके बेटे ने भी एक पत्र दिया जिसमें कहा कि वह खराब वित्तीय स्थिति के कारण अपनी मां को साथ नहीं रख सकता और उसने उन्हें वृद्धाश्रम में रखने का अनुरोध किया।’ परदीकर ने शनिवार को यहां पत्रकारों से कहा कि उनके बेटे की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा, ‘वह (परदीकर का बेटा) इस दुविधा में है कि अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करें या मेरी मदद करें। उसे कुछ महीने पहले एक निजी नौकरी मिली थी लेकिन वहां उसने ज्यादा कमाया नहीं। जब मेरा बेटा मेरी मदद नहीं कर पाया तो मेरे कमरे के मालिक ने अनाज देकर मेरी मदद की।’

महिला ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने कई लोगों की जिंदगियों पर बहुत बुरा असर डाला है। उन्होंने कहा, ‘लोग नौकरियां गंवा रहे हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर रही। मैं इश्वर से अपने बेटे को खुश रखने की दुआ करती हूँ।’

## कर्नाटक : कांग्रेस की ऊपरी भद्रा परियोजना जांच की मांग खारिज

बंगलुरु, 20 जून (भाषा)।

कर्नाटक के गृहमंत्री बासवराज बोम्मई ने भाजपा विधान परिषद एएच विश्वनाथ द्वारा 20 हजार करोड़ रुपए की ऊपरी भद्रा परियोजना को लागू करने में कथित अनियमितता के आरोपों को जांच कराने की कांग्रेस की मांग को रविवार को खारिज कर दिया।

बोम्मई ने इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, ‘सिंचाई परियोजना को लेकर प्रक्रिया (निविदा जारी) पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीटीपी) अधिनियम के तहत तय किया गया था। इस मामले में भी उसी का अनुकरण किया गया है। इस मामले में सबकुछ सामने है, आरोपों में कोई दम नहीं है।’ संवाददाताओं से बातचीत में बोम्मई ने कहा कि आरोप लगाता विपक्षी पार्टी का कर्तव्य है लेकिन जल संसाधन सचिव ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा, ‘जब सच जानते हैं तो उसकी जांच करने की क्या जरूरत है।’

वहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने विश्वनाथ के आरोपों के महंजनर मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसबीबी) से कराने की मांग की है जबकि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने पूरे प्रकरण की जांच विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त समिति से कराने की मांग की है। गौरतलब है कि विश्वनाथ ने हाल में आरोप लगाया था कि वित्त विभाग की मंजूरी के बिना ही ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की निविदा जारी की गई थी।

# ‘प्राकृतिक इलाकों के क्षरण, प्रजातियों के लुप्त होने का नतीजा है कोरोना’

नई दिल्ली, 20 जून (भाषा)।

भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के प्रमुख अतुल बागई ने कहा कि कोविड-19 महामारी प्राकृतिक इलाकों का क्षरण, प्रजातियों के लुप्त होने और उनके शोषण का नतीजा है। भारत समेत अन्य देशों को पारिस्थितिकी के क्षरण को रोकने और उसे उलटने के अपने प्रयास तेज करने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैवविविधता का खत्म होना तीन संकट हैं जिनका सामना भारत समेत पूरी पृथ्वी कर रही है और इनका आपस में संबंध है।

यूएनईपी के अधिकारी ने कहा कि भारत ने दशकों से छोटी अवधि के आर्थिक हितों का रास्ता अपनाया है और इनसे मनुष्य और अन्य जीवों को सहयोग मुहैया कराने की पारिस्थितिकी की क्षमता को कम कर दिया है। उन्होंने कहा, ‘कोविड-19 महामारी प्राकृतिक इलाकों के क्षरण, प्रजातियों के लुप्त होने और शोषण का नतीजा है। इसमें बदलाव की आवश्यकता है। भारत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए पहले ही समन्वित प्रयास कर रहा है और वह 2050 तक शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए वैश्विक प्रयासों

## छत्तीसगढ़ : गांव से 800 किलो गोबर चोरी, मामला दर्ज

कोरबा, 20 जून (भाषा)।

छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले के एक गांव से गाय का गोबर चोरी होने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पुलिस ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी एक अधिकारी ने कहा कि आठ-नौ जून की मध्यरात्रि में दोपका पुलिस थाना क्षेत्र के धुरेना गांव से 800 किलो गाय का गिबर चोरी हो गया, जिसकी कीमत 1600

ठाणे, 20 जून (भाषा)।

महाराष्ट्र में पुलिस ने म्यूकोरमाइकोसिस या ‘ब्लैक फंगस’ यानी कवक संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अहम दवा की कथित तौर पर कालाबाजारी करने को लेकर यहां तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

वर्तक मंडल के सहायक पुलिस आयुक्त, पंकज शिरसाट ने रविवार को बताया कि एक खुफिया सूचना के आधार पुलिस ने शनिवार को एक योजना बनाई और शुरुआत में दो लोगों को पकड़ा, जो दवा को अवैध रूप से बेचने आए थे। उन्होंने बताया कि पड़ोसी नवी मुंबई के पनवेल और पालघर जिले के वसई के रहने वाले दो लोगों को ठाणे में कपूरबावड़ी नाका के पास से गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 1,09,424 रुपए के लिपोसोमल

## योग दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन आज

नई दिल्ली, 20 जून (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस बार योग दिवस का मुख्य विषयवस्तु तंदुरुस्ती के लिए योग है। मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘कल 21 जून को हम सातवां योग दिवस मनाएंगे। इस साल की मुख्य विषयवस्तु तंदुरुस्ती के लिए योग है, जो शारीरिक और

एम्फोटेरिसिन-बी के 14 इंजेक्शन बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान दोनों लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने पालघर के बोईसर एक व्यक्ति से शीशिया खरीदने का सौदा किया था। पुलिस ने बाद में तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। उन्हें 23 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है।

मानसिक तंदुरुस्ती के लिए योगाभ्यास प्रोत्केंद्रित है।’ उन्होंने कहा, ‘लगभग 6.30 बजे सुबह योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करूंगा।’ आयुष मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि सभी दूरदर्शन चैनलों पर सुबह 6:30 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री किन्नर रिजिजू का संबोधन और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के योग प्रदर्शन का सीधा प्रसारण भी शामिल है।

उन्होंने कहा, ‘अच्छे भविष्य के लिए भारत को ऐसी खाद्य प्रणालियां पैदा करने पर काम करना चाहिए जो प्राकृतिक के साथ काम करें, अपशिष्ट कम करें और बदलावों के अनुकूल हों।’ बागई ने कहा, ‘हमें भारत में एक ऐसी संस्कृति पैदा करने की जरूरत है जो प्रकृति का सम्मान करती हो और इसकी परवाह करती हो। प्रकृति के लिए एक स्वास्थ्यकर सम्मान हमें एक स्वस्थ देश और सेहतमंद लोग देगा।’ उन्होंने जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों में युवाओं की भूमिका पर कहा कि वे वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु न्याय, जैव विविधता का ह्रास और पर्यावरण की कीमत पर विकास की चुनौती में महत्वपूर्ण बदलावों की मांग कर रहे व्यापक अंतरराष्ट्रीय युवा आंदोलनों का हिस्सा हैं।

उन्होंने कहा, ‘अच्छे भविष्य के लिए भारत को ऐसी खाद्य प्रणालियां पैदा करने पर काम करना चाहिए जो प्राकृतिक के साथ काम करें, अपशिष्ट कम करें और बदलावों के अनुकूल हों।’ बागई ने कहा, ‘हमें भारत में एक ऐसी संस्कृति पैदा करने की जरूरत है जो प्रकृति का सम्मान करती हो और इसकी परवाह करती हो। प्रकृति के लिए एक स्वास्थ्यकर सम्मान हमें एक स्वस्थ देश और सेहतमंद लोग देगा।’ उन्होंने जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों में युवाओं की भूमिका पर कहा कि वे वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु न्याय, जैव विविधता का ह्रास और पर्यावरण की कीमत पर विकास की चुनौती में महत्वपूर्ण बदलावों की मांग कर रहे व्यापक अंतरराष्ट्रीय युवा आंदोलनों का हिस्सा हैं।

रुपए है। दिपका थाना प्रभारी हरीश तांडेकर ने कहा कि ग्राम गौथन समिति के अध्यक्ष कमहान सिंह कंवर ने 15 जून को इस बावत औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। कंवर ने कहा कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन

न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गाय का गोबर दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है।

राज्य सरकार ने कृमि खाद के उत्पादन के लिए गोधन